

शादी की सालगिरह पर जरूरतमंदों को बांटा मास्क

May 28, 2020 | 1 minute read



लखनऊ : कोरोना वैश्विक महामारी से विश्व के 180 से अधिक देशों में पिछले लगभग तीन माह से संक्रमण ने अपना दंश फैला रखा है। भारतवर्ष में संक्रमण की संख्या दिनोदिन बढ़ती जा रही है जो विश्व के 57 लाख के सापेक्ष आज एक एक लाख 53 हजार पहुंच चुकी है। यद्यपि उनके ठीक होने की संख्या में जो 64,733 है, जिसका प्रतिशत 42.3 है, जो अन्य देशों की अपेक्षा अधिक है तथा मृत्यु आज तक मात्र 4,4365 जिसका प्रतिशत 2.85 है, जो विश्व के अन्य देशों के दर से बहुत कम है। अभी भी मजदूरों का दूसरे प्रदेशों से अपने जनपदों के तरफ वापस जाने का थमा नहीं है, बल्कि इससे सभी जनपदों में संक्रमण अधिक बढ़ता जा रहा है। यद्यपि देश की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुये कुछ क्षेत्रों में, कार्य-कलाप बढ़ाने व आवागमन में बंदिशों के साथ ढील दी गयी है तथा प्रदेशों को स्वयं की परिस्थिति के अनुरूप निर्णय लेने का कुछ अधिकार भारत सरकार ने दे रखा है। अभी भी सम्पूर्ण देशवासी संकट की ऐसी घड़ी में, एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ने में कृत संकल्प है।



प्रदेश की योगी सरकार कोरोना महामारी से निपटने के लिये हर सम्भव प्रयास कर रही है तथा मजदूरों को रोजगार देने के अवसर तथा जो अन्य प्रदेशों में लाकडाउन में फंसे मजदूरों को वापस लाने का सार्थक प्रयास कर रही हैं। इनमें तमाम समाजसेवी संस्थायें, संगठन अपने स्तर से भी बड़ी तल्लीनता से सेवाभाव में जुटी हुयी हैं।

विराम खंड-5 गोमतीनगर जनकल्याण महासमिति के पदाधिकारी, डा.भरत राज सिंह, पर्यावरणविद-सलाहकार और प्रचार-सचिव, ने अपनी शादी की साल-गिरह पर विराम खण्ड-5, के आस-पास मौजूद जरूरतमंद गरीब व बेसहारा लोगों को मास्क व फलों के 50 अदद पैकेट अपनी पत्नी मालती सिंह के साथ वितरण किया। इस कार्य-क्रम में, विराम खंड-5 जनकल्याण महासमिति के सचिव आर.एस.मिश्रा व विराम खण्ड-5 जनकल्याण समिति के अन्य पदाधिकारी एस.बी.एल. मल्होत्रा, सहायक सचिव फूलो का उपहार देकर सम्मिलित हुये ।